

Num

Chapter 16

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

בְּנֵי पुत्रों	וְאַבְרָם और-अबीराम	וְדָתָן और-दातान	לֵוִי लेवी-के	בֶּן- पुत्र-	קָהָת कहात-के	בֶּן- पुत्र-	יִצְהָר यिसहार-के	בֶּן- पुत्र-	קֹרֵחַ कोरह-ने	וַיִּקְחָהּ और-लिया	1
	H0048	H1885	H3878		H6955		H3324		H7141	H3947	
				וְרֹאוּבֵן रूबेन-के	בְּנֵי पुत्रों	פְּלֹת पेलेत-के	בֶּן- पुत्र-	וְאוֹן और-ओन	אֵלִיאָב एलीयाब-के		
				H7205		H6431		H0203	H0446		

कोरह दातान, अबीराम और ओन मूसा के विरुद्ध हो गए। (कोरह यिसहार का पुत्र था। यिसहार कहात का पुत्र था, और कहात लेवी का पुत्र था। एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम भाई थे और ओन पेलेत का पुत्र था। दातान, अबीराम और ओन रूबेन के वंशज थे।)

עֲרָה मंडली-के	נְשִׂאֵי प्रधान	וּמֵאֲתָיִם और-दो-सौ	חֲמִשָּׁים पचास	יִשְׂרָאֵל इसाएल-के	מִבְּנֵי- में-से-बेटों-	וְאֲנָשִׁים और-पुरुष	מֹשֶׁה मूसा	לְפָנָיו के-सामने	וַיִּקְמוּ और-खड़े-हुए	2
H5712		H3967	H2572	H3478		H0376	H4872	H6440		
						שָׁם नाम	אֲנָשִׁי- पुरुष-	מוֹעֵד सभा-के	קָרָא बुलाए-हुए	
						H8034	H0376	H4150	H7148	

इन चार व्यक्तियों ने इस्राएल के दो सौ पचास व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा किया और ये मूसा के विरुद्ध आए। ये दो सौ पचास इस्राएली व्यक्ति लोगों में आदरणीय नेता थे। वे समिति के सदस्य चुने गए थे।

כִּי क्योंकि	לְכֶם तुम्हारे-लिए	רַב- बहुत-	אֲלֵהֶם उनसे	וַיֹּאמְרוּ और-कहा	אֶחָד हारून	וְעַל- और-के-विरुद्ध-	מֹשֶׁה मूसा	עַל- के-विरुद्ध-	וַיִּקְרָאוּ और-इकट्ठे-हुए	3
			H0413	H0559	H0175		H4872		H6950	
יְהוּהָ: यहोवा-की	קָהָל सभा	עַל- पर-	תִּתְנַשְּׂאוּ तुम-उठाते-हो	וּמִדַּע तो-क्यों	יְהוּהָ यहोवा	וּבְתוֹכָם और-उनके-बीच	קְדָשִׁים पवित्र-हैं	כֻּלָּם सब-के-सब	הָעֵדָה मंडली	כָּל- सब-
H3068	H6951		H5375	H4069	H3068	H8432	H6918	H3605	H5712	H3605

वे एक समूह के रूप में मूसा और हारून के विरुद्ध बात करने आए। इन व्यक्तियों ने मूसा और हारून से कहा, "हम उससे सहमत नहीं जो तुमने किया है। इस्राएली समूह के सभी लोग पवित्र हैं। यहोवा उनके साथ है। तुम अपने को सभी लोगों से ऊँचे स्थान पर क्यों रख रहे हो?"

פְּנֵיוּ: अपने-मुँह	עַל- पर-	וַיִּפֹּל और-गिरा	מֹשֶׁה मूसा-ने	וַיִּשְׁמַע और-सुना	4
H6440		H5307	H4872	H8085	

जब मूसा ने यह बात सुना तो वह भूमि पर गिर गया।

אֲשֶׁר- जो-	אֶת- को-	יְהוּהָ यहोवा	וַיֵּדַע और-जानेगा	בְּקֶרֶב सुबह	לְאֹמְרוֹ कहते-हुए	עֲדָתוֹ उसकी-मंडली	כָּל- सारी-	וְאֵל- और-से-	קֹרֵחַ कोरह	אֶל- से-	וַיִּדְבֹּר और-कहा	5
	H0853	H3068	H3045	H1242	H0559	H5712	H3605	H0413	H7141	H0413	H1696	
יִקְרִיב निकट-लाएगा	בּוֹ वह	יִבְחָר- चुनेगा-	אֲשֶׁר जिसे	וְאֵת और-को-	אֵלָיו उसके-पास	וְהִקְרִיב और-निकट-लाएगा	הַקְּדוֹשׁ पवित्र	וְאֶת- और-को-	לוֹ उसका-है			
H7126		H0977		H0853	H0413	H7126	H6918	H0853				

אֵלָיו:
उसके-पास
[H0413](#)

तब मूसा ने कोरह और उसके अनुयायियों से कहा, "कल सवेरे यहोवा दिखाएगा कि कौन व्यक्ति सचमुच उसका है। यहोवा दिखाएगा कि कौन व्यक्ति सचमुच पवित्र है और यहोवा उसे अपने समीप ले जाएगा। यहोवा उस व्यक्ति को चुनेगा और यहोवा उस व्यक्ति को अपने निकट लेगा।

6 זאת עשו קחו- לכם מחלות קרח וכל- עדתו: 6
 यह करो लो- अपने-लिए धूपदानियाँ और-सारी- उसकी-मंडली H2063 H3947 H4289 H7141 H3605 H5712

इसलिए कोरह, तुम्हें और तुम्हारे सभी अनुयायियों को यह करना चाहिए:

7 ותנו ובהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר- 7
 और-डालो उनमें आग और-रखो उनपर धूप यहोवा के-सामने कल और-होगा वह-पुरुष जिसे- H5414 H2004 H0784 H7004 H6440 H3068 H4279 H1961 H0376

יבחר יהוה הוא הקדוש רב- לכם בני לוי: 7
 चुनेगा यहोवा वही पवित्र-है बहुत-है तुम्हारे-लिए बेटों लेवी-के H0977 H3068 H1931 H6918 H3878

किसी विशेष अग्निपात्र में आग और सुगन्धित धूप रखो। तब उन पात्रों को यहोवा के सामने लाओ। यहोवा एक पुरुष को चुनेगा जो सचमुच पवित्र होगा। किन्तु मुझे डर है कि तुमने और तुम्हारे लेवीवंशी भाईयों ने सीमा का अतिक्रमण किया है।”

8 ויאמר המעט כי- אל- קרח שמועו- נא בני לוי: 8
 और-कहा और-कहा से- कोरह सुनो- कृपया बेटों लेवी-के H0559 H4872 H0413 H7141 H8085 H4994 H3878

मूसा ने कोरह से यह भी कहा, “लेविवंशियों! मेरी बात सुनो।

9 המעט היא-כי- אל- ישראל אתכם מעדת ישראל- 9
 क्या-छोटी-है तुम्हारे-लिए क्योंकि- अलग-किया परमेश्वर-ने इस्राएल-के तुम्हें से-मंडली इस्राएल-की H4592 H0914 H0430 H3478 H0853 H5712 H3478

לחקריב אתכם אליו לעבד את- עבדת משכן יהוה ולעמד לפני- 9
 निकट-लाने-को तुम्हें उसके-पास करने-को को- सेवा की- निवास-की यहोवा-की और-खड़े-होने-को के-सामने H7126 H0853 H0413 H5647 H0853 H5656 H4908 H3068 H5975 H6440

העדה לשרתם: 9
 मंडली-के उनकी-सेवा-करने-को H5712 H8334

तुम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुम लोगों को अलग और विशेष बनाया है। तुम लोग बाकी इस्राएली लोगों से भिन्न हो। यहोवा ने तुम्हें अपने समीप लिया जिससे तुम यहोवा की उपासना में इस्राएल के लोगों की सहायता के लिए यहोवा के पवित्र तम्बू में विशेष कार्य कर सको। क्या यह पर्याप्त नहीं है

10 ויקרב את- כל- ואת- את- ויקרב- 10
 और-उसने-निकट-लाया तुझे और-को- सारे- तेरे-भाइयों बेटों- लेवी-के तेरे-साथ और-तुम-चाहते-हो भी- H7126 H0853 H0853 H3605 H0251 H3878 H0854 H1245 H1571

כהן: 10
 याजकपन H3550

यहोवा ने तुम्हें और अन्य सभी लेवीवंश के लोगों को अपने समीप लिया है। किन्तु अब तुम याजक भी बनना चाहते हो।

11 לכן אתה וכל- עדתך- על- יהוה ואתה- 11
 इसलिए तुम और-सारी- तेरी-मंडली जो-इकट्टे-हुए-हो के-विरुद्ध- यहोवा और-हारून H3259 H5712 H3605 H0175 H4100 H1931

תלוננו (עליו) 11
 बड़बड़ाते-हो उसके-विरुद्ध बड़बड़ाते-हो

तुम और तुम्हारे अनुयायी परस्पर एकत्र होकर यहोवा के विरोध में आए हो। क्या हारून ने कुछ बुरा किया है नहीं। तो फिर उसके विरुद्ध शिकायत करने क्यों आए हो”

12	וַיִּשְׁלַח	מֹשֶׁה	לְקַרְא	לְדָתָן	וְלֵאבִירָם	בְּנֵי	אֱלִיאָב	וַיֹּאמְרוּ	לֹא	נִעְלָה:
	और-भेजा	मूसा-ने	बुलाने-को	को-दातान	और-को-अबीराम	पुत्रों	एलीयाब-के	और-उन्होंने-कहा	नहीं	हम-चढ़ेंगे
	H7971	H4872	H7121	H1885	H0048		H0446	H0559	H3808	H5927

तब मूसा ने एलीआब के पुत्रों दातान और अबीराम को बुलाया। किन्तु दोनोम आदमियों ने कहा, “हम लोग नहीं आएंगे।”

13	הַמַּעֲט	כִּי	הֶעֱלִיתָנוּ	מֵאֶרֶץ	זְבֹת	חֶלֶב	וַדְּבַשׁ	לְהַמִּיתָנוּ	בְּמִדְבָּר	כִּי-
	क्या-छोटा-है	कि	तूने-चढ़ाया-हमें	से-देश	बहती-वाली	दूध	और-शहद	मारने-को-हमें	में-जंगल	क्योंकि-
	H4592		H5927	H0776	H2100	H2461	H1706	H4191		
	תִּשְׁתַּרַר	עָלֵינוּ	גַּם-	הַשְּׂתַרַר:						
	तू-राजा-बनता-है	हमारे-ऊपर	भी-	राजा-बनता-है						
	H8323		H1571	H8323						

तुम हमें उस देश से बाहर निकाल लाए हो जो सम्पन्न था और जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती थीं। तुम हम लोगों को यहाँ मरुभूमि में मारने के लिए लाए हो और अब तुम दिखाना चाहते हो कि तुम हम लोगों पर अधिक अधिकार भी रखते हो।

14	אֶף	לֹא	אֶל-	אֶרֶץ	זְבֹת	חֶלֶב	וַדְּבַשׁ	הַבְּיֹאֲתָנוּ	וַתָּזֶן-	לָנוּ	נַחֲלָת
	हाँ	नहीं	में-	देश	बहती-वाली	दूध	और-शहद	तूने-लाया-हमें	और-दिया-	हमें	विरासत
	H0637	H3808	H0413	H0776	H2100	H2461	H1706	H0935	H5414	H5159	
	שָׂרָה	וַיְכַרֵּם	הָעֵינִי	הָאֲנָשִׁים	הָהֵם	תִּנְקַר	לֹא	נִעְלָה:			
	खेत-का	और-दाख-बाग	क्या-आँखें	उन-पुरुषों-की	उन	तू-फोड़ेगा	नहीं	हम-चढ़ेंगे			
	H3754			H0376	H1992	H5365	H3808	H5927			

हम लोग तुम्हारा अनुसरण क्यों करें तुम हम लोगों को उस नये देश में नहीं लाए हो जो सम्पन्न है और जिसमें दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। तुमने हम लोगों को वह देश नहीं दिया है जिसे देने का वचन यहोवा ने दिया था। तुमने हम लोगों को खेत या अंगूर के बाग नहीं दिये हैं। क्या तुम इन लोगों को अपना गुलाम बनाओगे नहीं! हम लोग नहीं आएंगे।”

15	וַיַּחַר	לְמֹשֶׁה	מְאֹד	וַיֹּאמֶר	אֶל-	יְהוָה	אֶל-	תָּפֹן	אֶל-	מִנְחָתָם	לֹא
	और-क्रोधित-हुआ	मूसा	बहुत	और-कहा	से-	यहोवा	मत-	फिर	की-ओर-	उनकी-भेंट	नहीं
	H2734	H4872	H3966	H0559	H0413	H3068	H0408	H6437	H0413	H4503	H3808
	חֲמוֹר	אֶתְּךָ	מִמֶּה	נִשְׁאַתִּי	וְלֹא	הִרְעֵתִי	אֶת-	אֶתְּךָ	מִמֶּה:		
	गधा	एक	उनसे	मैंने-उठाया	और-नहीं	मैंने-बुराई-की	को-	एक	उनमें-से		
	H2543	H0259	H1992	H5375	H3808	H0853	H0259	H1992			

इसलिए मूसा बहुत क्रोधित हो गया। उसने यहोवा से कहा, “इनकी भेंटें स्वीकार न कर! मैंने इनसे कुछ नहीं लिया है एक गधा तक नहीं और मैंने इनमें से किसी का बुरा नहीं किया है।”

16	וַיֹּאמֶר	מֹשֶׁה	אֶל-	קָרַח	אֶתְּהָ	וְכָל-	עֲרֻתָּהּ	הָיוּ	לְפָנַי	יְהוָה	אֶתְּךָ	וְהֵם
	और-कहा	मूसा-ने	से-	कोरह	तुम	और-सारी-	तेरी-मंडली	हो	के-सामने	यहोवा	तुम	और-वे
	H0559	H4872	H0413	H7141		H3605	H5712	H1961	H6440	H3068	H1992	
	וְאֶהְרֹן	מִתָּר:										
	और-हारून	कल										
	H0175	H4279										

तब मूसा ने कोरह से कहा, “तुम्हें और तुम्हारे अनुयायियों को कल यहोवा के सामने खड़ा होना चाहिए। हारून तुम्हारे साथ यहोवा के सामने खड़ा होगा।”

17	וַיִּקְחוּ	אִישׁ	מִמֶּחֶתָּו	וַיִּתְּנוּ	עָלֵיהֶם	קִטְרֹת	וְהִקְרַבְתָּם	לְפָנַי	יְהוָה	אִישׁ	אִישׁ
	और-लो	प्रत्येक-पुरुष	अपनी-धूपदानी	और-डालो	उनपर	धूप	और-लाओ	के-सामने	यहोवा	प्रत्येक-पुरुष	प्रत्येक-पुरुष
	H3947	H0376	H4289	H5414	H7004	H7126	H7126	H6440	H3068	H0376	H0376
	מִמֶּחֶתָּו	חֲמִשָּׁים	וּמֵאֲתָו	מִמֶּחֶתָּו	וְאֶתְּהָ	וְאֶהְרֹן	אִישׁ	מִמֶּחֶתָּו:			
	अपनी-धूपदानी	पचास	और-दो-सौ	धूपदानियाँ	और-तुम	और-हारून	प्रत्येक-पुरुष	अपनी-धूपदानी			
	H4289	H2572	H3967	H4289	H0175	H0175	H0376	H4289			

तुम में से हर एक को एक अग्निपात्र लेना चाहिए और उसमें धूप रखनी चाहिए। ये दो सौ पचास अग्निपात्र प्रमुखों के लिये होंगे। हर एक अग्निपात्र को यहोवा के सामने ले जाओ। तुम्हें और हारून को अपने अग्निपात्रों को यहोवा के सामने ले जाना चाहिए।”

18 וַיַּעֲמֵדוּ אֶת-דָּוָד וְעַל-הָאֲבָנִים וְעַל-הָאֲבָנִים וְעַל-הָאֲבָנִים וְעַל-הָאֲבָנִים וְעַל-הָאֲבָנִים
 और-खड़े-हुए धूप उनपर और-रखा आग उनपर और-डाला अपनी-धूपदानी प्रत्येक-पुरुष-ने और-लिया
[H5975](#) [H7004](#) [H0784](#) [H5414](#) [H4289](#) [H0376](#) [H3947](#)

וְעַל-הָאֲבָנִים : וּמִשָּׁה מוֹעֵד אֶהָל פְּתַח
 और-हारून और-मूसा मिलाप-के तंबू-के द्वार-पर
[H0175](#) [H4872](#) [H4150](#) [H0168](#) [H6607](#)

इसलिए हर एक व्यक्ति ने एक अग्निपात्र लिया और उसमें जलती हुई धूप रखी। तब वे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खड़े हुए। मूसा और हारून भी वहाँ खड़े हुए।

19 מוֹעֵד אֶהָל פְּתַח אֶל-הָעֵדוּת כָּל-אֶת-קֹרֵחַ עֲלֵיהֶם וַיִּקְדָּח וַיִּקְדָּח
 मिलाप-के तंबू-के द्वार पास-मंडली सारी-को-कोरह-ने उनके-विरुद्ध और-इकट्टा-किया
[H4150](#) [H0168](#) [H6607](#) [H0413](#) [H5712](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7141](#) [H6950](#)

וַיִּקְדָּח : וְהָיָה כְּבוֹד-וַיִּרְא וְהָיָה
 मंडली सारी-को-यहोवा-की महिमा-और-दिखाई-दी
[H5712](#) [H3605](#) [H0413](#) [H3068](#) [H3519](#) [H7200](#)

कोरह ने अपने सभी अनुयायियों को एक साथ इकट्टा किया। ये वे व्यक्ति हैं जो मूसा और हारून के विरुद्ध हो गए थे। कोरह ने उन सभी को मिलावाले तम्बू के द्वार पर इकट्टा किया। तब यहोवा का तेज वहाँ हर एक व्यक्ति पर प्रकट हुआ।

20 וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר
 और-कहा और-कहा और-कहा और-कहा और-कहा
[H0559](#) [H0175](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,

21 כְּרֹנֶעַ אֶחָם וְאַכְלָה וְהָיָה מִתּוֹךְ הַבְּדִלִים
 पल-में उन्हें और-मैं-समाप्त-करूँगा इस मंडली से-बीच अलग-हो-जाओ
[H7281](#) [H0853](#) [H3615](#) [H2063](#) [H5712](#) [H8432](#) [H0914](#)

“इन पुरुषों से दूर हटो! मैं अब उन्हें नष्ट करना चाहता हूँ।”

22 וַיִּפְּלוּ וַיִּפְּלוּ וַיִּפְּלוּ וַיִּפְּלוּ וַיִּפְּלוּ
 और-गिर और-गिर और-गिर और-गिर और-गिर
[H0259](#) [H0376](#) [H1320](#) [H3605](#) [H7307](#) [H0430](#) [H0410](#) [H0559](#) [H6440](#) [H5307](#)

וַיִּפְּלוּ : וְהָיָה וְעַל-הָאֲבָנִים
 तू-क्रोधित-होगा मंडली सारी-और-पर पाप-करेगा
[H7107](#) [H5712](#) [H3605](#) [H2398](#)

किन्तु मूसा और हारून भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाए, “हे परमेश्वर, तू जानता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। कृपा करके इस पूरे समूह पर क्रोधित न हो। एक ही व्यक्ति ने सचमुच पाप किया है।”

23 וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר
 और-कहा और-कहा और-कहा और-कहा
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

तब यहोवा ने मूसा से कहा,

24 וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר
 और-अबीराम दातान कोरह निवास-के-से-चारों-ओर उठ-जाओ कहते-हुए मंडली से-बोल
[H0048](#) [H1885](#) [H7141](#) [H4908](#) [H5439](#) [H5927](#) [H0559](#) [H5712](#) [H0413](#) [H1696](#)

“लोगों से कहो कि वे कोरह दातान और अबीराम के डेरों से दूर हट जाए।”

25 וַיִּקָּם וַיִּקָּם וַיִּקָּם וַיִּקָּם
 इस्राएल-के प्राचीन उसके-पीछे और-गए और-अबीराम-के दातान पास-और-गया मूसा और-उठा
[H3478](#) [H2205](#) [H3212](#) [H0048](#) [H1885](#) [H0413](#) [H3212](#) [H4872](#)

मूसा खड़ा हुआ और दातान और अबीराम के पास गया। इस्राएल के सभी अग्रज (नेता) उसके पीछे चले।

26 וַיְדַבֵּר אֶל-הָעֵדָה לֵאמֹר סוּרוּ מֵעַל אֹהֲלֵי הָאֲנָשִׁים הַרְשָׁעִים הָאֵלֶּה 26
 और-कहा से- मंडली कहते-हुए कृपया हटो से-ऊपर तंबुओं-के अहली-के हारशैम-के इन
[H0428](#) [H7563](#) [H0376](#) [H0168](#) [H4994](#) [H5493](#) [H0559](#) [H5712](#) [H0413](#) [H1696](#)

וְאֵל-תַּנְעֵנוּ בְּכֹל-אֲשֶׁר לָהֶם פֶּן-תִּסְפּוּ תְּסַבּוּ-בְּכֹל-חַטָּאתָם:
 और-मत-छुओ सब-जो उनका-है कहीं-उनका-हो-जाओ तुम-भी-समाप्त-हो-जाओ सब-उनके-पापों-में
[H3605](#) [H5595](#) [H6435](#) [H3605](#) [H5060](#) [H0408](#)

मूसा ने लोगों को चेतावनी दी, “इन बुरे आदमियों के डेरों से दूर हट जाओ। इनकी किसी चीज को नो छुओ! यदि तुम लोग छुओगे तो इनके पापों के कारण नष्ट हो जाओगे।”

27 וַיֵּצְאוּ וַיָּנֻחּוּ מִשְׁכַּן-קֹרֵחַ דָּתָן וְאֲבִירָם מִסְבִּיב וַיָּדָתוּ וַאֲבִירָם וַיֵּצְאוּ
 और-उठ-गए और-उठ-गए निवास-के-से-ऊपर कोरह दातान और-अबीराम-के और-अबीराम और-दातान और-अबीराम
[H3318](#) [H0048](#) [H1885](#) [H5439](#) [H0048](#) [H1885](#) [H7141](#) [H4908](#) [H5927](#)

וַיִּצְבְּבוּ וַיִּנְשִׂיחֵם וַיִּנְשִׂיחֵם וַיִּנְשִׂיחֵם וַיִּנְשִׂיחֵם וַיִּנְשִׂיחֵם
 खड़े-हुए और-उनके-बच्चे और-उनके-बेटे और-उनकी-पत्नियाँ अपने-तंबुओं-के द्वार-पर
[H2945](#) [H0802](#) [H0168](#) [H6607](#) [H5324](#)

इसलिए लोग कोरह, दातान और अबीराम के तम्बुओं से दूर हट गए। दातान और अबीराम अपने डेरे के बाहर अपनी पत्नी, बच्चे और छोटे शिशुओं के साथ खड़े थे।

28 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּזֹאת תִּדְעוּן כִּי-תִדְעוּן תִּדְעוּן תִּדְעוּן תִּדְעוּן
 और-कहा मूसा-ने इससे तुम-जानोगे क्योंकि-तुम-जानोगे तुम-जानोगे तुम-जानोगे तुम-जानोगे
[H4639](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7971](#) [H3068](#) [H3045](#) [H2063](#) [H4872](#) [H0559](#)

וְהָאֵלֶּה כִּי-לֹא מֵלִבִּי:
 इन क्योंकि-नहीं मेरे-दिल-से
[H3808](#) [H0428](#)

तब मूसा ने कहा, “मैं प्रमाण प्रस्तुत करूँगा कि यहोवा ने मुझे उन चीजों को करने के लिए भेजा है जो मैंने तुमको कहा है। मैं दिखाऊँगा कि वे सभी मेरे विचार नहीं थे।

29 אִם-כִּמֹּת כָּל-הָאָדָם יִמְתּוּן אֵלֶּה וּפְקֻדָתָ כָּל-הָאָדָם יִפְקֹד וְעַלִּיהֶם לֹא
 यदि-जैसी-मृत्यु सब-आदमी-की सब-आदमी-की सब-आदमी-की सब-आदमी-की सब-आदमी-की
[H3808](#) [H0120](#) [H3605](#) [H6486](#) [H0428](#) [H4191](#) [H0120](#) [H3605](#) [H4194](#)

וְהָאֵלֶּה כִּי-לֹא מֵלִבִּי:
 यहोवा-ने भेजा-मुझे
[H7971](#) [H3068](#)

ये पुरुष यहाँ मरेंगे। किन्तु यदि ये सामान्य ढंग से मरते हैं अर्थात् जिस प्रकार आदमी सदा मरते हैं तो यह प्रकट करेगा कि यहोवा ने वस्तुतः मुझे नहीं भेजा है।

30 וְאִם-בְּרִיאָה יִבְרָא יְהוָה וּפְצֻתָּהּ יְהוָה וּפְצֻתָּהּ יְהוָה וּפְצֻתָּהּ יְהוָה וּפְצֻתָּהּ יְהוָה
 परंतु-यदि-नई-सृष्टि सृष्टि-करेगा यहोवा सृष्टि-करेगा यहोवा सृष्टि-करेगा यहोवा सृष्टि-करेगा यहोवा
[H0853](#) [H1104](#) [H6310](#) [H0853](#) [H0127](#) [H6475](#) [H3068](#) [H1278](#)

וְאֵת-כָּל-אֲשֶׁר לָהֶם וַיִּרְדּוּ חַיִּים שְׂאֵלָה וַיִּרְדּוּ וַיִּרְדּוּ וַיִּרְדּוּ וַיִּרְדּוּ
 और-को-सब-जो उनका-है जो और-उतरेंगे और-उतरेंगे और-उतरेंगे और-उतरेंगे और-उतरेंगे
[H5006](#) [H3045](#) [H7585](#) [H3381](#)

וְהָאֵלֶּה כִּי-לֹא מֵלִבִּי:
 इनको-इसके-पापों-ने
[H3068](#) [H0853](#) [H0428](#) [H0376](#)

किन्तु यदि यहोवा इन्हें दूसरे ढंग अर्थात् कुछ नये ढंग से मरने देता है तो तुम लोग जानोगे कि इन व्यक्तियों ने सचमुच यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। पृथ्वी फटेगी और इन व्यक्तियों को निगल लेगी। वे अपनी कब्रों में जीवित ही जाएंगे और इनकी हर एक चीज इनके साथ नीचे चली जाएगी।”

31 וַיְהִי אֲשֶׁר כָּבַלְתָּו לְדַבֵּר אֵת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַתִּבְקַע הָאֲדָמָה אֲשֶׁר

जो भूमि और-फट-गई इन इन वचनों सब-को बोलना जैसे-ही-समाप्त-किया और-हुआ

[H0127](#) [H1234](#) [H0428](#) [H1697](#) [H3605](#) [H0853](#) [H1696](#) [H3615](#) [H1961](#)

תַּחְתֵּיהֶם:
उनके-नीचे
[H8478](#)

जब मूसा ने इन बातों का कहना समाप्त किया, व्यक्तियों के पैरों के नीचे पृथ्वी फटी।

32 וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת-פִּיהָ וַתִּבְלַע וְאֵת אֲתָם וְאֵת בְּתֵיהֶם וְאֵת כָּל-הָאָדָם

आदमी सब-और-को-उनके-घरों और-को-उन्हें और-निगल-गई अपना-मुँह को-पृथ्वी-ने और-खोली

[H0120](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0853](#) [H0853](#) [H1104](#) [H6310](#) [H0853](#) [H0776](#)

אֲשֶׁר לְקֶרַח וְאֵת כָּל-הָרְכוּשׁ:
संपत्ति सारी-और-को-कोरह-के जो
[H7399](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7141](#)

यह ऐसा था मानों पृथ्वी ने अपना मुँह खोला ओ इन्हें खा गई और उनके सारे परिवार औ कोरह के सभी व्यक्ति तथा उनकी सभी चीजें पृथ्वी में चली गई।

33 וַיִּרְדּוּ הֵם וְכָל-אֲשֶׁר לִהֵם חַיִּים שְׂאֵלָה וַתִּכַּס עַלֵיהֶם הָאָרֶץ

पृथ्वी उनपर और-ढक-गई अधोलोक-में जीवित उनका-था जो और-सब-वे और-उतर-गए

[H0776](#) [H3680](#) [H7585](#) [H0853](#) [H0853](#) [H1104](#) [H6310](#) [H1992](#) [H3381](#)

וַיֵּאבְדוּ וַיִּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקָּהָל:
सभा-के से-बीच और-नष्ट-हो-गए
[H6951](#) [H8432](#) [H0006](#)

वे जीवित ही कब्र में चले गए। उनकी हर एक चीज उनके साथ गई। तब पृथ्वी उनके ऊपर से बन्द हो गई। वे नष्ट हो गए और वे उस डेरे से लुप्त गो गए।

34 וְכָל-יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיהֶם נָסוּ לְקֶלֶם כִּי אָמְרוּ פֶן-כִּהְיֶה

और-सब-इसाएल जो और-थे उनके-चारों-ओर-थे भागे उनकी-आवाज़-से क्योंकि उन्होंने-कहा कहीं-

[H6435](#) [H0559](#) [H5127](#) [H5439](#) [H3478](#) [H3605](#)

תִּבְלַעַנּוּ הָאָרֶץ:
पृथ्वी निगल-जाए-हमें
[H0776](#) [H1104](#)

इसाएल के लोगों ने नष्ट किये जाते हुए लोगों का रोना चिल्लाना सुना। इसलिए वे चारों ओर दौड़ पड़े और कहने लगे, “पृथ्वी हम लोगों को भी निगल जाएगी।”

35 וַאֲשֶׁר יִצְאָה מֵאֵת יְהוָה וַתֹּאכַל אֵת הַחֲמִשִּׁים וּמְאָתָיִם אִישׁ מִקְרִיבָי

और-आग निकली से-पास यहोवा और-भस्म-किया को-पचास और-दो-सौ पचास चढ़ाने-वालों

[H7126](#) [H0376](#) [H3967](#) [H2572](#) [H0853](#) [H0398](#) [H3068](#) [H0854](#) [H3318](#) [H0784](#)

הַקְּטֹרֶת:
धूप-के
[H7004](#)

तब यहोवा से आग आई और उसने दो सौ पचास पुरुषों को, जो सुगन्धि भेंट कर रहे थे, नष्ट कर दिया।

36 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-कहा और-ने यहोवा-से-मूसा कहते-हुए
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

37	אָמַר कहो	אַל- से-	אַלְעָזָר एलीआज़ार	בֶּן- पुत्र-	אַהֲרֹן हारून-के	הַכֹּהֵן याजक	וַיָּרֶם और-उठाए	אֶת- को-	הַמִּזְבֵּחַ धूपदानियों	מִבֵּין से-बीच	הַשָּׂרָף जले-हुए-से
	H0559	H0413	H0499		H0175	H3548	H0853	H4289	H0996	H8316	
	וְאֵת- और-को-	הָאֵשׁ आग	זָרָה- बिखेर-दे-	הַלְּאָה दूर	כִּי क्योंकि	קִדְשׁוֹ: पवित्र-हुई					
	H0853	H0784	H2219	H1973	H6942						

“हारून के पुत्र याजक एलीआज़ार से कहो कि वह आग में से सुगन्धि के पात्रों को एकत्र करे। डेरे से दूर के क्षेत्र में उन कोयलों को फैलाओ। सुगन्धि के बर्तन अब भी पवित्र हैं। ये वे पात्र हैं जो उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया था। उनके पाप का मूल्य उनका जीवन हुआ। बर्तनों को पीट कर पत्तों में बदलो। इन धातुओं के पत्तों का उपयोग वेदी को ढकने के लिए करो। वे पवित्र थे क्योंकि उन्हें यहोवा के सामने प्रस्तुत किया गया था। उन चपटे बर्तनों को इस्राएल के सभी लोगों के लिए चेतावनी बनने दो।”

38	אֶת- को-	מִחֲתוֹת धूपदानियों	הַחֲטָאִים पापियों-की	הָאֵלֶּה इन	בְּנַפְשֵׁיהֶם अपने-प्राणों-के-विरुद्ध	וַעֲשׂוּ और-बनाओ	אֹתָם उन्हें	רַקְעֵי पीटी-हुई	פְּחִים पत्तों	צָפוּי मढ़ावा
	H0853	H4289	H2400	H0428	H5315	H0853	H0853	H7555	H6826	
	לְמִזְבֵּחַ वेदी-के-लिए	כִּי- क्योंकि-	הַקְּרִיבָּם उन्होंने-चढ़ाया	לְפָנָי- के-सामने-	יְהוָה यहोवा	וַיִּקְדְּשׁוּ और-पवित्र-हुई	וַיְהִי और-होगी	לְאֹת चिह्न-के-लिए	לְבָנֵי बेटों-के-लिए	
	H4196		H7126	H6440	H3068	H6942	H1961	H0226	H6826	
		יִשְׂרָאֵל: इस्राएल-के								H3478

“हारून के पुत्र याजक एलीआज़ार से कहो कि वह आग में से सुगन्धि के पात्रों को एकत्र करे। डेरे से दूर के क्षेत्र में उन कोयलों को फैलाओ। सुगन्धि के बर्तन अब भी पवित्र हैं। ये वे पात्र हैं जो उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया था। उनके पाप का मूल्य उनका जीवन हुआ। बर्तनों को पीट कर पत्तों में बदलो। इन धातुओं के पत्तों का उपयोग वेदी को ढकने के लिए करो। वे पवित्र थे क्योंकि उन्हें यहोवा के सामने प्रस्तुत किया गया था। उन चपटे बर्तनों को इस्राएल के सभी लोगों के लिए चेतावनी बनने दो।”

39	וַיִּקַּח और-लिया	אַלְעָזָר एलीआज़ार	הַכֹּהֵן याजक-ने	אֶת- को	מִחֲתוֹת धूपदानियों	הַנֹּשֵׂת काँसे-की	אֲשֶׁר जो	הַקְּרִיבוֹ चढ़ाया-था	הַשָּׂרָפִים जले-हुओं-ने	וַיִּרְקְעוּם और-पीटा
	H3947	H0499	H3548	H0853	H4289	H0853	H7126	H7126	H8313	H7554
	לְמִזְבֵּחַ: वेदी-के-लिए									
	H4196									H6826

तब याजक एलीआज़ार ने काँसे के उन सभी बर्तनों को इकट्ठा किया जिन्हें वे लोग लाए थे। वे सभी व्यक्ति जल गए थे, किन्तु बर्तन तब भी वहाँ थे। तब एलीआज़ार ने कुछ व्यक्तियों को बर्तनों को, चपटी धातु के रूप में पीटने को कहा। तब उसने धातु की चपटी चादरों को वेदी पर रखा।

40	זָכְרוֹן यादगार	לְבָנֵי बेटों-के-लिए	יִשְׂרָאֵל इस्राएल-के	לְמַעַן ताकि	אֲשֶׁר जो	לֹא- न-	יִקְרַב निकट-आए	אִישׁ पुरुष	זָר पराया	אֲשֶׁר जो	לֹא नहीं	מִזְרַע से-वंश
	H2146		H3478	H4616	H3808	H3808	H7126	H0376	H7126	H3808	H3808	H2233
	אֲהֲרֹן हारून-के	הוּא वह	לְהַקְטִיר धूप-जलाने-को	קִטְרֹת धूप	לְפָנָי के-सामने	יְהוָה यहोवा	וְלֹא- और-न-	יְהִי होगा	כְּקִרְחָה जैसा-कोरह	וּבְעֵדָתוֹ और-जैसी-उसकी-मंडली		
	H0175	H1931	H7004	H6440	H3068	H3808	H1961	H7141	H5712			
	כַּאֲשֶׁר जैसा	דָּבָר कहा-था	יְהוָה यहोवा-ने	בְּיַד- हाथ-से-	מֹשֶׁה मूसा-के	לֹא: उससे						
		H1696	H3068	H3027	H4872							

उसने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा आदेश दिया था। यह संकेत था कि जिससे इस्राएल के लोग याद रख सकें कि केवल हारून के परिवार के व्यक्ति को यहोवा के सामने सुगन्धि भेंट करने का अधिकार है। यदि कोई अन्य व्यक्ति यहोवा के सामने सुगन्धि जलाता है तो वह व्यक्ति कोरह और उसके अनुयायियों की तरह हो जाएगा।

इसलिए, हास्न ने मूसा के कथनानुसार काम किया। सुगन्धि और आग को लेने के बाद वह लोगों के बीच दौड़कर पहुँचा। किन्तु लोगों में बीमारी पहले ही आरम्भ हो चुकी थी। हास्न ने लोगों के भुगतान के लिए सुगन्धि की भेंट दी।

48	וַיַּעֲמֵד	בֵּין	הַמָּתִים	וּבֵין	הַחַיִּים	וַתַּעֲצֹר	הַמִּגְפָּה:
	और-खड़ा-रहा	बीच-	मरे-हुओं	और-बीच	जीवितों	और-रुक-गई	विपत्ति
	H5975	H0996	H4191	H0996	H0996	H6113	H4046

हास्न मरे हुए और जीवित लोगों में खड़ा हुआ और तब बीमारी रूक गई।

49	וַיְהִי	הַמָּתִים	בְּמִגְפָּה	אַרְבַּעַה	עָשָׂר	אַלֶּף	וּשְׁבַע	מֵאוֹת	מִלְבָּד	הַמָּתִים	עַל-
	और-थे	मरे-हुए	विपत्ति-से	चौदह	हज़ार	हज़ार	और-सात	सौ	अलग-	मरे-हुओं	के-कारण-
	H1961	H4191	H4046	H0702	H6240	H0505	H7651	H3967	H0905	H4191	
										קָרַח:	דְּבַר-
										कोरह-के	मामले-
										H7141	H1697

किन्तु इसके पहले कि हास्न उनके पापों के लिए भुगतान करे, चौदह हजार सात सौ लोग उस बीमारी से मर गए। तब यहोवा ने इसे रोका। वहाँ ऐसे लोग भी थे जो कोरह के कारण मरे।

50	וַיָּשָׁב	אַתְרֹן	אַל-	מִשָּׁה	אַל-	פֶּתַח	אַהֲלֵ	מוֹעֵד	וְהַמִּגְפָּה	נִעְצְרָה:	פ
	और-लौटा	हास्न	पास-	मूसा-के	पास-	द्वार	तंबू	मिलाप-के	और-विपत्ति	रुक-गई	प
	H7725	H0175	H0413	H4872	H0413	H6607	H0168	H4150	H4046	H6113	

तब हास्न मिलापवाले तम्बू के द्वार पर मूसा के पास लौटा। लोगों की भयंकर बीमारी रोक दी गई।